





REDTAPE LIMITED

Registered Office

Plot No. 08. Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201305 India **Tel:** +91 120 6994444 | +91 120 6994400

CIN: U74101UP2021PLC156659 Web: www.redtape.com

E-mail: info@redtapeindia.com

September 6, 2023

BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot no. C-1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Scrip Code: 543957

NSE Symbol: REDTAPE

Sub: Notice published in newspaper

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of notice published in Financial Express Newspaper (in all editions) in English language and Jansatta Newspaper in regional language on Wednesday, September 6, 2023, thereby issuing notice for the 2nd Annual General Meeting of the Company and information on e-voting as contained therein.

The above is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,

For REDTAPE Limited

Sakshi Mehta Company Secretary

Works

• C-4, 5, 36, 37, Sector - 59, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301 Tel : +91 120 4263193

• Bulk Land, UPSIDC Industrial Area, Site-II, NH-27, Distt. Unnao, Uttar Pradesh - 209801 Tel: +91 73111 70114

• Plot No. 18-19, Nand Nagar Industrial Estate Phase-1, Mahuakheraganj, Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand - 244713 Tel: +91 70552 21530

FINANCIAL EXPRESS

MUKTA ARTS LIMITED

an entertainment company

Registered Office: Mukta House, Behind Whistling Woods Institute, Filmcity Complex, Goregaon (E), Mumbai-400065. **Tel. No.:** 022-3364 9400 **Fax:** 022-3364 9401 Email: investorrelations@muktaarts.com

CIN: L92110MH1982PLC028180 Website: www.muktaarts.com

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING

Members of Mukta Arts Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday 27th September, 2023 at 04:00 p.m. (IST) without the physical presence of the Members in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("the Act") and the rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI. Members of the Company are hereby informed that AGM Notice and Annua

Report for the financial year 2022-23 has been sent electronically to the Members whose e-mail address is registered with the Company, Registrar and Transfe Agent and Depositories as on 25th August, 2023. The Company has completed electronic dispatch of the Notice on 5th September, 2023.

Members may note that the Notice and Annual Report for the financial year 2022-23 is also available on the Company's website at www.muktaarts.com websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on

According to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is providing the facility of remote e-voting and e-voting during the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating voting

Members may cast their votes during the period mentioned herein below: Commencement of remote e-voting End of remote e-voting

at 5:00 p.m. (IST)

Members will be provided with the facility for voting through an electronic voting system during the proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, will be eligible to exercise their right to vote during such proceedings of the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote again on such resolutions

physical mode and members who have not registered their email address has been provided in the Notice. The manner in which Members who have forgotter the User ID and Password, can obtain/generate the same, has also been provided in the said Notice. A person whose name is recorded in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date 19th September, 2023 shall only

acquire shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request along with the requisite documents at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user id and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact at 022-4886 7000 and 022-2499 7000. In the case of Individual Member holding securities in Demat mode and who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice.

for Members and e-voting user manual for Members available at the download section at www.evoting.nsdl.com or contact, Mr. Anubhav Saxena - Deputy Manager on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request a evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board of Directors For Mukta Arts Limited

Date: 6th September, 2023 Place: Mumbai

Hemal N. Pankhania **Company Secretary and Compliance Officer**



CIN: L01119KL1978PLC002947 | 24/1624, Bristow Road, Willingdon Island Cochin 682003, Tel: 0484-6624362, Fax: 0484-2668024

e-mail:hmlcorp@harrisonsmalavalam.com • Website:www.harrisonsmalavalam.com

NOTICE OF THE 46th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) INFORMATION ON BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that

Malayalam Ltd. ("the Company") will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), without the physical presence of the Members at the AGM Venue.

2. In compliance with the relevant Circulars, electronic copies of the Notice of available on the website of the company at www.harrisonsmalayalam.com system or casting vote through the e-voting system during the 46th AGM of

on the Cut-off date ie Wednesday, **September 20, 2023 may** cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL.

through remote e-voting or e-voting system during the 46th AGM.

b. The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 24, 2023 9.00 a.m (IST) and ends on Tuesday, September 26, 2023 5.00 p.m (IST).

c. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or

the e-voting system at the AGM. (iii) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and (iv) Only persons whose name is

registered their email addresses are provided in the Notice of the 46th AGM which is also available on the website the Company. Members are requested to visit www.harrisonsmalavalam.com to obtain such details

login id and password by referring to instructions in the Notice of AGM or can also follow procedure mentioned below for registration of email id for obtaining future correspondence.

a. PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN

or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed: i) In case of shares held in physical form, kindly submit your updation request

Link Intime India Private Limited, Surya, 35, Mayflower Avenue, Sowripalayam Road, Coimbatore – 641028, E-mail:coimbatore@linkintime.co.in ii) In case of shares held in Demat mode, the shareholder may please contact

the Depository participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised

In case of any query/clarifications, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or Coimbatore@linkintime.co.in.

h. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 21, 2023 to September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

on the website of the company www.harrisonsmalayalam.com and also will be informed to the stock exchanges, www.bseindia.com and

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. For any technical assistance/ guery/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact

Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542 / 43) In case of any further queries, please contact our Registrar and Share Transfer

The above information is being published for the benefit & information of shareholders and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars

Binu Thomas



LOVABLE LINGERIE LIMITED

CIN: L17110MH1987PLC044835 Regd.Off: A-46, Street No.2, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Maharashtra, Maharashtra, Ph. No. +91-022-28383581 Fax No. +022-9128383582.

E-mail: corporate@lovableindia.in Website: www.lovableindia.ir

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of LOVABLE LINGERIE LIMITED ("the Company") will be held on Wednesday, September 27, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), without physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (*SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM to transact the business as listed in the Notice of 36th AGM. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Wednesday, 27th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM to be held on September 27, 2023 Members participating through VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

In compliance with the relevant circulars, the aforesaid Notice along with Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2023 have been sent on 04th September, 2023 in electronic mode to the member of the Company whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website www.lovableindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in.

2015 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is pleased to provide all its members (holding Shares in physical or electronic form), the facility to exercise their vote by Remote E-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services to be provided by Link Intime India Private Limited. M/s. D. M. Zaveri & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting procedure in a fair and transparent manner. The details pursuant to the provisions of the Companies Act 2013 & rules made

1. All the businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

The cut-off date is Wednesday, 20" September 2023;

 Date and time of end of Remote e-Voting is Tuesday, 26th September, 2023 at 5.00 p.m. (IST). Remote E-Voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST)

electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL. Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice may go through the Remote E-voting instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending request to instameet@linkintime.co.in, However, if a person is already registered with LIIPL for remote e-voting, then the existing

user ID and password may be used for casting the vote.

Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC/ OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Detailed instruction for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is

September 2023 ("Cut-Off Date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cutoff date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM.

refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) for shareholders and e-voting user manual available at the download section of https://instavote.linkintime.co.in or call on Tel: 022-49186000 or send a request at instameet@linkintime.co.in. Registration of email ID and Bank Account details:

Holding Shares in Physical To register e-mail address: Please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and

Holding Shares


in Demat

back), PAN and AADHAR (self-attested scanned copy of both Alternatively, members holding shares in Physical can also update/upload the said information/documents on https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html or

https://web.linkintime.co.in/kyc-downloads.html Please contact your DP and follow the process advised by

The notice of the AGM shall contain the instructions regarding the manner in which the Members can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

Place: Mumbai



CIN: L72900GJ2007PLC109642 Regd. Off.: Unit No 02, 28th Floor, GIFT-II Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5 Gift City, Gandhi nagar, Gujarat- 382355

Corporate office: 14, Olympus Industrial Estate, Off. Mahakali Caves Road, Andheri (E) Mumbai, Maharashtra - 400093

E-mail ID: cs@suvidhaa.com | Web: www.Suvidhaa.com

Notice is hereby given that the Sixteenth (16th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Suvidhaa Infoserve Limited ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, September 27, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC) Other Audio Visual Means (OAVM) in due compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Rules made thereunder read with the MCA's General Circulars numbered Circular No. 14/2020 dated 08 April 2020, Circular No.02/2021 dated 13 January 2021, Circular No. 20/2021 dated 12 December 2021 Circular No. 21/2021 dated 14 December 2021, Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022 respectively and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with the SEBI Circulars numbered SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 to transact the

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (as amended from time to time) and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.suvidhaa.com under investor relations tab, stock exchange websites and on the website of Link Intime India Private Limited (agency for providing the Remote e-Voting facility and VC/OAVM Facility) i.e. https://instavote.linkintime.co.in/Home The dispatch of Notice of the AGM and Annual Report through emails has been completed on September 5, 2023

The Members shall join the meeting 15 (fifteen) minutes before the time scheduled to start the 16th AGM, and the facility allows participation of up to 1,000 Members on a

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the of remote e-voting and e-voting during the AGM through INSTAMEET, the e-voting platform as provided by Link Intime India Pvt. Ltd. which shall enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them, as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023. The Board has severally appointed Ashish C Doshi, Partner, M/s, SPANJ & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer(s) for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member postdispatch of the Notice of the AGM i.e., September 5, 2023, and holding shares as of on the cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in by mentioning your Folio/DP ID and Client ID No. (16 digit Demat A/c No.) or may visit link: https://instavote.linkintime.co.in/Home or call on 022-49186000 for more details. However, if a person is already registered with Link Intime for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote.

The members may note that:

a) The remote e-voting period shall:

Commence: On Sunday, September 24, 2023 at 09.00 a.m. End: On Tuesday, September 26, 2023 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall

be disabled thereafter:

d) Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM; b) Once a vote is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it

c) The facility for e-voting shall be made available during the AGM through VC/OAVM facility for the members who have not cast their vote by remote e-voting; and

d) The members who have cast their vote through remote e-voting shall not be entitled to cast their vote again. If a member casts votes by both the modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done during the AGM shall be disregarded. In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer on 022-49186000 and ask for e-voting related queries.

Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 16" AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through Remote e-voting or through e-voting during the AGM.

Place : Mumbai

ACCEL LIMITED CIN: L30007TN1986PLC100219

Regd. & Corp Office: Illrd Floor, SFI Complex, 178, ValluvarKottam High Road, Nungambakkam, Chennai-600 034.

Phone: 044-28222262, Email: companysecretary@accel-India.com ACCEL Website: https://www.accel-india.com

NOTICE OF 37[™] ANNUAL GENERAL MEETING

Accel Limited ("the Company") will be held on Thursday, 28th September, 2023 at 03.00 P.M.

(IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the

Dear Members Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

business, as set out on the Notice of the AGM.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read together with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') issued by Ministry of Corporate Affairs [MCA] and circular dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 issued by SEBI in this regard. The attendance of members attending the AGM through VC/ OAVM shall be reckoned for the

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2022-2023 has been sent on 04th September, 2023 to the members whose E-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company i.e. www.accel-india.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e., www.evoting.nsdl.com The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being 21st September, 2023.

27th September, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e.,21st September 2023, may cast their vote electronically. Any person who becomes a member of the

The remote e-voting period begins on 25th September, 2023, at 09:00 A.M. and ends on

Company after the cut-off date i.e., 21st September 2023 may obtain the User ID and

password by either sending an e-mail request to e-voting@nsdl.co.in or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. As per Regulation 42 of the LODR, the Transfer Books of the Company Shall remain Closed from Friday, 22rd September, 2023 to Thursday, 28th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM including for ascertaining the shareholders eligible for receiving the dividend.

The facility for voting through electronic voting system is also made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting Information and instructions relating to e-voting have been sent to the members through email. The same login credentials may be used for attending the AGM through VC/OAVM. Detailed process and manner of Remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notes to the AGM Notice.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com/ or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at https://www.evoting.nsdl.com/

The Board of Directors at its meeting held on 11th August, 2023 appointed Mr. Sony George Mathew, Practicing Company Secretary, Chennal as Scrutinizer for conducting the e-voting

> For Accel Limited SURAJ PRAKASH GUPTA

By the Order of the Board

Date: 05.09.2023

Place: Chennai

process in a fair and transparent manner.

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

STEL Holdings Limited (CIN: L65993KL1990PLC005811) Regd. Office: 24/1624, Bristow Road,

Willingdon Island, Cochin - 682003, Kerala Ph: 0484 6624335 Fax: 0484 - 2668024 Email: secretarial@stelholdings.com Website: www.stelholdings.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) - INFORMATION ON BOOK CLOSURE AND E-VOTING

1. The 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of STEL Holdings Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28, 2023 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), without the physical presence of the Members at the AGM Venue.

2. In compliance with the relevant Circulars, electronic copies of the Notice of the 33rd AGM and Annual Report for the FY 2022-23 have been sent to all members whose email ids are registered with the Company/Depository Participants/RTA. The Notice and Annual Report of the 33rd AGM will also be available on the website of the company at www.stelholdings.com, website of the Stock Exchanges ie. BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com, www.nseindia.com & on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of notice of the AGM through e-mails has been completed as of now. The instructions for joining the 33rd AGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting system or casting vote through the e-voting system during the 33rd AGM of the Company are provided in the Notice of the 33rd AGM

3) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-off date i.e **Thursday**, **September 21**, **2023** may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL.

Members are hereby informed that:

a. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system during the 33rd AGM.

b. The remote e-voting period begins on Monday, September 25, 2023 9.00 a.m (IST) and ends on Wednesday, September 27, 2023 5.00 p.m (IST).

c. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be **Thursday**, **September 21**, **2023**.

d. Members may note: (i) The remote e voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 pm (IST) on September 27, 2023 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently: (ii) the facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e- voting system at the AGM. (iii) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and (iv) Only persons whose name is recorded in the register of the members as on the Cut-off date shall be entitled

to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. e) The Manner of voting remotely for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the 33rd AGM which is also available on the website the Company. Members are requested to visit www.stelholdings.com to obtain such details

f) Any person who acquires shares of the Company and became member post -dispatch of AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login id and password by referring to instructions in the Notice of AGM or can also follow procedure mentioned below for registration of email id for obtaining future correspondence.

a) PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS

In case the shareholders has not registered his/her/their email address with the Company/its Registrar and Share Transfer Agents (RTA)/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed:

a)In case of shares held in physical form, kindly submit your updation request in the prescribed Form ISR-1 [hosted on the website of the Company (www.stelholdings.com) and RTA (www.linkintime.co.in)] to our RTA, Link Intime India Private Limited, Surva, 35, Mayflower Avenue Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, E-mail:coimbatore@linkintime.co.in b)In the case of Shares held in Demat mode, the shareholder may please

contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP. In case of any query/clarifications, a member may send an e-mail to RTA at

rnt.helpdesk@linkintime.co.in or coimbatore@linkintime.co.in. **h**. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements Regulations 2015) the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday**, **September 22**, **2023**

Annual General Meeting.

September 05, 2023

Cochin

to Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of

i. The results declared along with the report of the scrutinizer shall be placed on the website of the company www.stelholdings.com and also will be informed to the stock exchanges, www.bseindia.com and www.nseindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. For any technical assistance/ query/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. under help section or write

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542 / 43)

In case of any further queries, please contact our Registrar and Share Transfer

The above information is being published for the benefit & information of shareholders and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars. **STEL Holdings Limited**

> Lakshmi P. S Place: Pune

REDTAPE

REDTAPE LIMITED CIN: U74101UP2021PLC156659

Regd. Office: Plot No. 8, Sector 90, Noida, Gautam Buddha Nagar,

Uttar Pradesh -201301. India Phone: +91 120 6994444 | +91 120 6994400 Email: compliance@redtapeindia.com Website: www.redtape.com

Notice is hereby given that the 2nd (Second) Annual General Meeting ('AGM') of members

of REDTAPE Limited ('Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at

1130 Hours (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and in accordance with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') ('MCA Circulars') to transact business as set out in Notice of the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM www.evoting.nsdl.com and members participating through VC / OAVM facility shall be reckoned for purpose of quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the MCA Circulars, electronic copy of the Notice of the AGM and

Annual Report for financial year 2022-23 have been sent to all members whose email ID was registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, M/s KFin Technologies Limited (formerly KFin Technologies Private Limited) ('RTA') / Depository Participant(s). The Notice of the AGM and Annual Report for financial year 2022-23 are also available on the Company's website www.redtape.com and on website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') (agency for providing remote e-voting and evoting facility) at www.evoting.nsdl.com.

Instruction for remote e-voting and/or e-voting during AGM: E-Voting: Pursuant to provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and MCA Circulars,

the Company is providing to its members facility to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means. Members may cast their votes remotely ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide remoting e-voting facility and e-voting during the AGM. Further, facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote evoting will be able to vote at the AGM through e-voting during AGM. Further, shareholders

Members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through NSDL. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in Notice. Details as required pursuant to provisions of the Act and Companies (Management and Administration) Rules, 2014 given hereunder: September 5, 2023 Notices through e-mail From 0900 Hours (IST) on

September 27, 2023 remote e-voting Up to 1700 Hours (IST) on September 29, 2023 Saturday, September 23, 2023 1700 Hours (IST) on September 29, 2023 beyond Ms. Sakshi Mehta Contact details of the person responsible to address the grievances connected Company Secretary Plot No.-08, Sector-90, Noida-201301 with the electronic voting Email Id:compliance@redtapeindia.com Telephone No.: +91 120 6994444

register of beneficial owners maintained by the depositories as on Cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The remote evoting module shall be disabled by NSDL for voting after remote e-voting period. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of Notice of AGM and hold shares as on the Cut-off date i.e. September 23, 2023, may obtain login ID and password in manner as mentioned in instructions sent

have been sent to members through e-mail. The same login credentials should be used

Please note that a person whose name is recorded in register of members or in the

for attending the AGM through VC/ OAVM.

Date: 05.09.2023

the AGM through VC/OAVM, shareholders may contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email id – evoting@nsdl.co.in who will address

For REDTAPE Limited

Sakshi Mehta



NOTICE is hereby given that the fifty-fifth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the

business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for

14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19", MCA circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, circular no. 14/2021 dated December 14, 2021 and circular no. 02/2022 dated May 5, 2022, circular no. 10/2022 dated December 28, 2022 in relation to "Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM)" (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January, 15 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January, 5 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted holding of AGM through VC/OAVM, without the

the Company will be held through VC/OAVM. In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories, Annual Report 2022-23, interalia, containing the Notice of 55th AGM is being send to the members of the Company on 5th September, 2023 and is also available on the website of the Company at www.finolex.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and NSDL at https://www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of determining the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM are

provided in the Notice of AGM. The Record Date is 22nd September, 2023 for the purpose of AGM and for payment of dividend for the Financial Year ended on 31st March, 2023, if approved at the AGM. In the event the Company is unable to the pay the Dividend to any shareholder by electronic mode due to non-registration of the bank account, the Company will dispatch the demand draft/cheque to such shareholder, in due

In case you have not registered your email address and/or not updated your bank account mandate for receipt of dividend, please follow the below instructions:

as per the process advised by your Depository Participant (DP). Physical Holding Register/Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company, KFIN Technologies Ltd. The Company had sent letters for furnishing the required details.

Manner of casting votes through e-voting:

Members can cast their votes on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of voting, including voting remotely (remote e-Voting) by Members holding shares in dematerialized mode, cast votes by remote e-Voting will be able to vote electronically at the AGM.

Company as on Friday, 22nd September, 2023 ('Cut-off date'). The remote e-voting module shall be disabled thereafter by NSDL. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website at www.finolex.com.

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through NSDL Portal

i.e., www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of AGM. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or at telephone no. +91-22-24994545. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular,

For FINOLEX CABLES LIMITED

Company Secretary & General Manager (Legal)

Dated: 5th September, 2023 New Delhi

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the

the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

through electronic means, as the authorized agency.

24th September, 2023 26th September, 2023 at 9:00 a.m. (IST) Remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled thereafter.

for which the Members has already cast the vote through remote e-voting. Manner of e-voting by the Members holding shares in dematerialized mode

be considered eligible for the purpose of e-voting. Any person holding shares in physical form and non-individual members, who

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs

1. The 46th Annual General Meeting (AGM) of the members of Harrisons

the 46th AGM and Annual Report for the FY 2022-23 have been sent to all members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant/RTA(s). The Notice and Annual Report of the 46th AGM will also be website of the Stock Exchanges ie. BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com, www.nseindia.com & on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of notice of the AGM through emails has been completed as of now. The instructions for joining the 46th AGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting

the Company are provided in the Notice of the 46th AGM. 3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as

Members are hereby informed that:

a. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted

by e-voting system at the AGM shall be Wednesday, September 20, 2023. d. Members may note: (i) The remote e voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 pm (IST) on September 26, 2023 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through

recorded in the register of the members as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM e. The Manner of voting remotely for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not

f. Any person who acquires shares of the Company and became member, post -dispatch of AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain

In case the shareholders has not registered his/her/their email address with the Company/its Registrars and Share Transfer Agents (RTA)/Depositories and

in the prescribed Form ISR-1 (hosted on the website of the Company www.harrisonsmalayalam.com and RTA www.linkintime.co.in) to our RTA,

by the DP.

i. The results declared along with the report of the scrutinizer shall be placed www.nseindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the

Agents at their e-mail ID: coimbatore@linkintime.co.in.

For Harrisons Malayalam Limited Company Secretary



Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) amendment Rules,

there under are as follows:

Date and time of commencement of Remote e-Voting from Saturday, 23rd September 2023 at 9.00 a.m. (IST).

on 26th September 2023. During this period, members may cast their vote

provide in the 36th Notice of AGM. Voting right of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share of the Company as on Wednesday, 20th

SEBI has mandated the submission of PAN, KYC details and nomination by holders of Physical by October 01, 2023 In case of any grievances connected with regards to remote e- voting you may

Account details, members are requested to please follow the below Process

Members

For Lovable Lingerie Limited

suvidhaa SUVIDHAA INFOSERVE LIMITED

NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

b) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time; c) The member who have cast their vote through remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM;

to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of https://instavote.linkintime.co.in/ Home send a request to (Name of NSDL Official) at enotices@linkintime.co.in or call Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

For Suvidhaa Infoserve Limited Date: September 5, 2023 Sd/-Harish Chalam Company Secretary and Compliance Officer

Agents at their e-mail ID: coimbatore@linkintime.co.in

Company Secretary

may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote evoting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

1 Date of completion of sending of 2 Date and time of commencement of 3 Date and time of end of remote e-voting 4 Cut-off date 5 Remote e-voting shall not be allowed iformation and instructions including details of user id and password relating to e-voting

In case of any queries with respect to remote e-voting or e-voting during AGM or attending

Place: Noida, Uttar Pradesh Company Secretary

CIN: L31300MH1967PLC016531 | Email: investors@finolex.com NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 55™ ANNUAL GENERAL MEETING

convening the AGM. Pursuant to the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular nos.

physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of

Register/Update the details in your demat account, Dematerialised Holding

physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. Member attending the AGM who have not The remote e-voting period commences on Tuesday, 26th September, 2023 (9.00 a.m.) and will end on Thursday, 28" September, 2023 (5.00 p.m.). The voting rights of the members shall be in proportion to their paid up equity share capital of the

Joining the AGM through VC/OAVM

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

Siddhesh Mandke

financialexp.epapr.in

September 05, 2023

Cochin

एतदद्वारा सुबना दी जाती है कि:

एसआरएम एनर्जी लिमिटेड

CIN: L17100DL1985PLC303047 पंजीकृत कार्यालयः 21 बसंत लोक कॉम्पलेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 टेलीफोन नंo: 011-41403205 | वेबसाइट: www.srmenergy.in | ईमेल: info@srmenergy.in

एजीएम की सूचना दिनांक 14 अगस्त, 2023 में निर्घारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 28 सितम्बर, 2023 को प्रातः 08.00 बजे एक्जीक्यूटिव बलब, डॉली फार्म्स एंड रिसॉट्र्स, 439, ग्राम शहूरपुर, पी.ओ. फतेहपुर बेरी, नई विल्ली–110074 र आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022 के क्रम में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में इसी संबंध में जारी किए गए पहले के परिपन्नों औ मारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) का परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और पूर्वोक्त वर्षों में जारी पहले परिपत्रों के संदर्भ में, कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट उन सभी शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पते कंपनी/िंडपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-मेल) से भेज दी गई है।

वित्त वर्ष 2022—23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/Home/AnnualReports एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bsaindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, र डाउनलोड किया जा सकता है।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसरण में एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतू कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 22 सिवम्बर, 2023 से गुरूवार, 28 सिवम्बर, 2023 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2013 वं नियम 20 के अनुसरण में कंपनी ने अपने सदस्यों (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दोनों में शेयर घारण करने वालें) को सेन्टल ढिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाओं के द्वारा एजीएम की सचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की सविधा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण के रिकार्ड हेत् कट-ऑफ तिथि 21 सितम्बर, 2023 है।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और जिन्होंने कंपनी / आरटीए के पास ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे सेबी परिपन्न सं. सेबी/एवओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी -पीओरी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के संदर्भ में अपना केवाईसी पूरा करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यगण निम्नलिखित लिंक http://www.srmenergy.in/Horne InvestorRelations द्वारा निर्देशों का पालन करके केवाईसी फार्म ढाउनलोड कर सकते हैं। ढिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना ई-मेल पता/अन्य विवरण अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 👣 36वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय क

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है. (बी) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक

रिपोर्ट का डिस्पैच करने का कार्य (केवल ई-मेल के माध्यम से) 05 सितम्बर, 2023 को प्रारंभ किया गया है, (सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग सोमवार, 26 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी और बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को साथं 5.00 बजे समाप्त होगी, (डी) 27 सितम्बर, 2023 (ब्धवार) को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की अनुमति नहीं होगी, (ई) 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.smenergy.in/ और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर उपलब्ध है और (एफ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं विधि के लिए सदस्यगण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के (पेज नं. 64 से 68) में शामिल निर्देशों को भली-भांति पद लें या सीढीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/Help.isp को देखें। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितम्बर, 2023 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के लिए शेयरधारकों की पात्रता

के लिए कट-ऑफ तिथि। तक शेयर धारण करता है. वह वार्षिक रिपोर्ट में ई-बोटिंग के लिए वर्णित निर्देशों का पालन कर सकता है। एजीएम में भौतिक प्रारूप में वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में चपरिश्वत ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही बैठक में भौतिक माध्यम से वोट दे पाएंगें, ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए श्री सतीश कुमार निरंकार, एस. के. निरंकार एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा वोटिंग से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरि. प्रबंधक (सीढीएसएल) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन युवुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई-400013 से संपर्क करें या ई—मेल helpdesk.evoting@cdslindis.com पर मेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर कॉल करें। निदेशक मंडल के आदेश से

> कृते एसआरएम एनर्जी लिमिटेड (पंकज गुप्ता) कंपनी सचिव ICSI M. No. A63088

स्थान: आब् रोड

दिनांक: 06.09.2023

CRANEX LIMITED CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010 E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010

NOTICE OF THE 48TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Forty-Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

Cranex Limited ('Company') will be held on Saturday, September 30, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in compliance with applicable provision of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange, Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circula No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ("SEBI Circular") (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 that the business as set out in the Notice of Annual General Meeting may be transacted by electronic voting and that the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility

In compliance with the relevant Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY 2022 have been sent on 5th September, 2023 to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/depository Participant(s). The aforesaid document: are also available on the Company's website at www.cranexitd.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively, and on the website of NSDL AT

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Registe of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of

Instructions for e-voting and e-voting during AGM

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by Members holding shares in a dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM and is also available on the website of the Company www.cranexltd.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, respectively, and or the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. evoting.nsdl.com

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:-Commencement of e-voting | From 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 27th September, 2023

End of e-voting Up-to 5.00 p.m. (IST) on Friday, 29th September, 2023 The Company has fixed Saturday, 23rd September, 2023 as the "CUT-OFF DATE" for determinin the eligibility of the members to vote by electronic means or at the Annual General Meeting.

n case, a person has become a member of the Company after dispatch of notice of Annua General meeting but on or before the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, 23rd September he/she may write to NSDL on the e-mail id evoting@nsdl.co.in requesting for the User id and Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the existing User Id and Password for casting his/her vote through remote e-voting Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members

who have not registered their email-ids, are requested to register the same, for receiving all communications including Annual Report, Notice etc. form the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id. In case, members have any query regarding e-voting, Members may send a request to

evoting@nsdl.co.in for procuring user ID and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM Notice or call on toll free number .: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 For Cranex Limited

Place: New Delhi

Company Secretary Membership No.: A29426

Renu

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED CIN: L67120DL1993PLC052256

Regd. Office: 103, Palco House, 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 E-mail:csvirtualeducation@gmail.com; Website: www.virtualeducation.in, Phone: 011-41522143 NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING.

BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of Virtual Global Education Limited (the Company) is scheduled to be held on Wednesday, the September 27, 2023 at 01:00 P.M at Maharaja Banquets, A-1/20A, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the

businesses as set out in the Notice of the AGM The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are registered with the

Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the notices to the Shareholders is 05th September, 2023. In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-23 and login details for e-voting:

Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services (P) Ltd. at *Info@skylinerta.com* providing folio number, name of the shareholder. scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address. Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as

per the process advised DP

These documents are also available on Company's website www.virualeducation.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Security Depository Limited (NSDL) through their portal www.evotingindia.com to enable

The remote e-voting period commences on Sunday, September 24, 2023 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 26, 2023 (05:00 pm). No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, September 21, 2023, may cast their vote by remote E-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut of date i.e. Thursday, September 21, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA Skyline Financial Services (P) Ltd at *Info@skylinerta.com*, However, if the members are already registered with NSDL 'or remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a

resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Apoorv Srivastava, Practicing Company Secretary (Membership No, FCS 12734 & CP No, 21063), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to E-voting may be addressed to Ms. Shivani Jindal, Company Secretary Virtual Global Education Limited, 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the September 20, 2023 to Wednesday, the September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the

shareholders at the Annual General Meeting. For and on Behalf of Virtual Global Education Limited Date: 05.09.2023

Shivani Jindal **Company Secretary & Compliance Officer** Place: Delhi

Date: September 05, 2023

मॉडर्न डेनिम लिमिटेड पंजीकत कार्यालय: तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरोही-307510

फोन: 02974-228044, CIN:- L17124RJ1977PLC001758 ईमेलः denim.modern@gmail.com, वेबसाईटः www.moderndenim.com

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना एतदद्वारा सृचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक साधारण सभा गुरूवार दिनांक 28 सितम्बर, 2023

को दोपहर: 01.00 बजे पंजीकृत कार्यालय तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आबू रोड, जिला- सिरोही-307510 में आयोजित की जायेगी जिसमें 45वीं एजीएम की सूचना में निर्देशित विषयों को निष्पादित किया जावेगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुरूप एजीएम की सचना के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिया गया है जिन्होंने कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ रजिस्ट्रार और शेयर टांसफर एजेंट के साथ अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत की है। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें एजीएम के आयोजन और ई-वोटिंग निर्देशों की सूचना कंपनी की बेबसाइट www.moderndenim.com पर उपलब्ध है तथा बीएसई लिमिटेड की बेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की बेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन 6, सितम्बर, 2023 को इंमेल के माध्यम से भेज दी है।

एतद्द्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 (1) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के नियमन 42, के प्रावधानों के अनुसरण में कम्मनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्मनी की शेवर अंतरण पुस्तकें 22 सितम्बर, 2023 से 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनिमय 2015 के नियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण मे कम्पनी के सभी प्रस्ताव जो वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में उल्लिखित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। सदस्य सभा के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतपत्रों के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा मे मतदान करने की सुविधा उसी को दी जायेगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया है। रिमोट ई-वोटिंग का समय 25 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर 27 सितम्बर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा। रिमोट ई-वोटिंग मॉडवृल 27 सितम्बर, 2023 को शाम 5.00 के बाद ई-मतदान के लिए निष्क्रय कर दिया जायेगा।

सदस्य रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान करने के बाद भी वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कम्पनी ने सदस्यों के पंजीकृत ईमेल पते पर युजर आईडी और ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड भेज दिया है। जिस किसी सदस्य ने ईमेल आईडी RTA / कम्पनी को प्रदान नहीं की है और अन्य कोई व्यक्ति, जो वार्षिक साधारण सभा की सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और cut-off-date जो की 21 सितम्बर, 2023 है को अंश रखता है, एजीएम के नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, और रिमोट ई-बोर्टिंग द्वारा मतदान के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही ई- वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौज़दा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

रिमोट ई- वोटिंग सुविधा से संबन्धित किसी भी प्रश्न/ शिकायत के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का उल्लेख कर सकते हैं या सौरभ कुम्भट अधिकृत व्यक्ति को मॉडर्न डेनिम लिमिटेड, तलहेटी, ग्राम कारोली, तहसील- आब् रोड, जिला- सिरोही-307510 ईमेल: denim.modem@gmail.com फोन: 02974-228044 में सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

> मॉडर्न डेनिम लिमिटेड के लिए (हर्षिता हेतवाल) कंपनी मचिव

CCL INTERNATIONAL LIMITED CIN: L26940DL1991PLC044520

Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033 Phone No.: 011-42142258

E-mail: cmpsec@cclil.com **Website:** www.evocreteindia.com NOTICE FOR 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the CCL International Limited ('Company') will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means 'OAVM'), to transact the businesses as set out in the Notice of the 32nd AGM, dated 30th August, 2023, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 ("SEBI") read with the Circular No. 14/2020 dt. April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dt. April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dt. January 13, 2021, General Circular No. 10/2021 dt. June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dt. December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular dated May 12, 2020, Circular dated January 15, 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023 ("SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI/ Circular") (collectively referred to as 'relevant circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Members will be able to attend the AGM through VC/OVAM. Members participating through the VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In terms of MCA circular and SEBI circular, the Notice of 32nd AGM setting out the ordinary and special business to be transacted at the meeting and the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, together with Audited Standalone Financial Statement for the Financial Year 2022-23 and the Reports of Directors, Auditors thereon etc. has been sent by electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories/RTA and the email process has been completed. The requirements of sending physical copy of the Notice of 32nd AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars/ Notification(s). The aforesaid documents are also available on the company website at www.evocreteindia.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members hold shares in physical mode and who have not update their e-mail address with the Company are requested to update their e-mail address by sending e-mail request

Members holding shares in dematerialised mode are requested to registered/update their e-mail addresses with the relevant Depository Participants. The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner, in which shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time AGM. After updation of email ID, members may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

The documents referred to in the Notice of 32nd AGM are available electronically for inspection without any fees by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of 32nd AGM. Members desiring to inspect statutory registers and other relevant documents should send an email to the company at cmpsec@cclil.com.

Instructions for Remote e-voting prior to the AGM and e-voting during the AGM

In compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or enactment(s) thereof for the time being in force}, and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, and Secretarial Standard of General Meeting ("SS-2") issued by the Company Secretaries of India, the Company is providing facility to all its members to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of 32nd AGM by electronic means (e-voting) by using electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) for remote e-voting prior to the AGM.

The remote e-voting period starts on Wednesday, 27th September, 2023 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, 29th September, 2023 (5.00 p.m. IST). Remote e-voting shall be disabled by NSDL at 5:00 p.m. on 29th September, 2023 and members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. For the electronic voting instruction, shareholders may go through the instruction in the Notice of 32nd AGM.

Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2023 only shall be entitled to avail

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e Saturday, 23rd September, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM;

d. A member may participate in the 32nd AGM even after exercising his right to vote through remote e- voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for voting electronically will be made available at the 32nd AGM to the

members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013

read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days

The Company has appointed Ms. Richa Gulati, Practicing Company Secretary (CP No. 11283), as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and evoting at AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, at the designated email id-evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559. In case of any queries, member may also contact Mr. Pradeep Kumar, Company

Secretary through e-mail www.cmpsec@cclil.com or at telephone No. 0120-4214258. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions/manner for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM. For and on behalf of the Board of Directors

For CCL International Limited

Company Secretary & Compliance Officer M.No. A50972

Pradeep Kumar

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद–201206 (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473

ई—मेलः spaceincubatrics@gmail.com, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com दूरभाष:- 01232 - 261288

वार्षिक साधारण सभा की सचनाः

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लिमिटेड के सदस्यों की 7वीं वार्षिक साधारण समा शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को मध्यान्ह 01:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद-201206 (य.पी.) पर, वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनांक 14 अगस्त 2023 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सेमेत पृथक रूप से इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, "उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सुचना कम्पनी की वेबसाईट www.spaceincubatrics.com और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंटल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0 ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है। इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें: (i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन)

- नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण समा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेत् शेयर होल्डरों के निर्धारण हेत् कट-आफ तिथि शनिवार, 23 सितम्बर 2023 है। जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि को कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड
- https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं। (iii) रिमोट ई—वोटिंग 27 सितम्बर 2023 (बुधवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे साय पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे साय पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व

समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार

प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो

- अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा। (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट-आफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 (शनिवार) को शेयरधारक हो, वे ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दुरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई-मेल आई ढीः helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com
- (v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी।

(vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को www.spaceincubatrics.

com/wp-content/uploads/2023/07/NOTICE_7TH-AGM_SPACE.pdf ₹ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग युजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री देबोश्री चौधरी, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दुरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और हरित पहल के

एक भाग के रूप में, कंपनी सदस्यों को नोटिस/दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक रूप में सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई-मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में खिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए। वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कडाई से पालन करते हुए होगी। वास्ते—स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

रेडटेप लिमिटेड

सीआईएन: U74101UP2021PLC156659

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर s, सेक्टर 90, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,

उत्तर प्रदेश -201301, भारत

फोन: +91 120 6994444 l +91 120 6994400

इंमेलः compliance@redtapeindia.com वेबसाइटः www.redtape.com

रतदृह्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी

सचीबद्धता विनियम') के सभी लागू प्रावधानों तथा कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') हारा जारी सामान्य परिपत्र

दिनांक 8 अप्रैल. 2020. 13 अप्रैल. 2020. 5 मर्ड. 2020. 28 सितंबर. 2020. 31 दिसंबर. 2020. 13 जनवरी

2021, 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 ('एमसीए परिपन्न') के अनुसार एजीएम के नोटिस

में निर्धारित व्यवसाय निष्पादित करने के लिए रेडटेप लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 2सरी (दुसरी) वार्षिक

आम बैटक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को 1130 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

सदस्य वीसी/ओएवीएम www.cvoting.nsdl.com के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे और वीसी/ओएवीएम

सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गणन

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, विश्वीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की

डलेक्टॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर

एजेंट, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)

('आरटीए')/हिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सचना और

वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.redtape.com और स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल

स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com

पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') (रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान

ई-वोटिंगः अधिनियम, सेबी सुचीबद्धता विनियमों और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों

को इलेक्टॉनिक माध्यम से एजीएम में पारित होने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकारों

का प्रयोग करने की सविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट दरस्थ ढंग से ('रिमोट ई-वोटिंग') डाल सकते

| हैं। कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में

इसके अलावा, एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी

और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम

के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा, शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के

माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम

सदस्यों को एनएसडीएल के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सविधा प्रदान की

जा रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। अधिनियम और

. है-वोटिंग से संबंधित यजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित जानकारी और निर्देश सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से

भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया

कपया ध्यान दें कि जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी

स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. वह एजीएम में वेटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वेटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार

होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेवर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और

कट-ऑफ तिथि चानी 23 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है. वह नोटिस के साथ भेजे गए निर्देशों में उल्लिखित तरीके

रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग या वीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के संबंध में किसी

भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या सश्री पल्लवी म्हात्रे,

वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्कोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति

बापट मार्ग, लोक्षर परेल, मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in पर से संपर्क कर सकते हैं

5 सितम्बर, 2023

सुश्री साक्षी मेहता

शनिवार, 23 सितम्बर, 2023

29 सितम्बर, 2023 को 0900 बने (भा.मा.स.) से

29 सितम्बर, 2023 को 1700 बजे (भा.मा.स.) तक

29 सितम्ब, 2023 को 1700 वजे (भा.मा.स.) के बाद

ई-मेल आईही : compliance@redtapeindia.com

रेडटेप लिमिटेड के लिए

साक्षी मेहता

कंपनी सचिव

प्लॉट नं. 08, सेक्टर-90, नोएडा-201301

दुरभाष नं. : +91 120 6994444

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विवरण यहां दिए गए हैं:

('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्ञअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-बोटिंग और/या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए निर्देश:

तिथिः ०५ सितम्बर, २०२३

स्थानः मुरादनगर

की जायेगी।

एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

4 कट-ऑफ तिथि

में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1 ई-मेल द्वारा नोटिस भेजने की पूर्णता तिथि

2 रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि तथा समय

3 रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय

इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं

से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

जो शिकायतों का समाधान करेंगी।

दिनांक: 05.09.2023

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश

⁶ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित शिकायतों का निपटान

करने वाले उत्तरदावी व्यक्ति का सम्पर्क विवरण

ह0/- (खुशबू सिंघल)

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स.सं.: ए25992

MODI SPINNING & WEAVING MILLS CO. LTD.

Regd. Office: Modinagar-201201 (U.P.) CIN No. U17111UP1946PLC001428 E-MAIL ID: mswmcoltd@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act. 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27th September, 2023 to 28th September,

For Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd. Dated: 05.09.2023 Rajendra Sharma Place: Modinagar Dy. Company Secretary

By order of the Board,

''फार्म एनसीएलटी, 3ए'' (देखें नियम 35) कम्पनी याचिका नं. 69/एएलडी/2023

याचिका की सुचना

विरोला भुज प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 21/68, फ्रीगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश-282004, भारत द्वारा 29 अगस्त, 2023 को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण के संशोधन के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत एक याचिका की गई है तथा उक्त याचिका पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज के समक्ष 22.9.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक व्यक्ति आवेदक के अधिवक्ता के पास उनके नाम एवं पते के साथ उनके या उनके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित उनके आशय की सचना इस तरह से भेजें ताकि वह आवेदक के अधिवक्ता के पास आवेदन की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व में पहुंच जाये। यदि वे याचिका का विरोध करना चाहें. तो विरोध के कारण अथवा उनके शपथ पत्र की प्रति उस सचना के साथ प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्धारित शुल्कों के भगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा

याचिका की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

वीकेसी लीगल, डी-38, एलजीएफ (एल/एस) साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049

मेग्नम वेंचर्स लिमिटेड सीआईएन: L21093DL1980PLC010492 हब और ओक, ई —14, लोअर ग्राउंड फ्लोर डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली—110024

पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ-एमएन 01, फोन : +91-11-42420015 ईमेल : info@magnumventures.in वेबसाईट: www.magnumventures.in

43 वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में शुद्धिपत्र हिद्धिपत्र कंपनी की 43 वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम) के लिए 21 अगस्त 2023 के नोटिस के संदर्भ में जारी किया जा रहा है, जो बुधवार, 20 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित किया जाना है ।

कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता। है कि वे नोटिस की कार्यसूची / मद संख्या 8 के संबंध में दिखाई देने वाले सुधारों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, जो| (http://www.magnumventures.in/pdf/Corrige) ndum-to-Notice-of-43rd-AGM.pdf) ਧਾ उपलब्ध है, को नोट करें ।

www.magnumventures.in और में बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और www.nseindia.com पर एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट परभी उपलब्ध है।

यह शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट

43वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की अन्य सभी विवरण पहले की तरह ही है।

मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

तिथि : 05.09.2023 आइना गुप्ता कंपनी सचिव स्थान : गाजियाबाद

निखिल कुमार वर्मा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

MPS

एमपीएस फर्मा लिमिटेड (पूर्व में एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड) सीआईएनः एल७४८९९एचआर१९९४पीएलसी०३८३००

कॉर्पोरेट कार्यालयः 703, अरुणाचल भवन 19, बाराखंभा रोड,कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

फोनः 011-42424884, 43571040-45, **फैक्सः** 011-43571047

पंजी. कार्यालय एवं कारखानाः 138, रोज-का-मेओ, औद्योगिक क्षेत्र, सोहना, जनपद—मेवात—122103 (हरियाणा) दूरमाषः 0124-2362471, ईमेलः : info@mpspharmaa.com, वेबसाइटः www.mpspharmaa.com वार्षिक आम बैठक, बही समापन और दूरस्थ ई-मतदान की सूचना

तदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 पूर्वाह 09.30 बजे

की सुचना दिनांकित 29 अगस्त, 2023 में निर्धारित व्यवसाय का लेन—देन किया जाएगा। एजीएम की सुचना और वित्त वर्ष 2022—2023 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को 05 सितंबर, 2023 को अनुमत माध्यम से भेज दिया गया है। सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वेरचित लागू नियमावली के साथ उक्त अधिनियम की धारा 91 के अनुपालानुसार, एतदुद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की अंश अंतरण बहियां और सदस्यों की पंजिका जो है वह एजीएम के उददेश्य हेत् **शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 29 सितंबर,**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने नेशनल क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के मंच पर दूरस्थ ई—मतदान सुविधा के माध्यम से एजीएम सूचना दिनांकित 29 अगस्त 2023 में वर्णितानुसार समस्त व्यवसायमुलक मदों का लेन—देन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा उपलब्ध कराई है। दररथ –मतदान का प्रारंभ 29 सितंबर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे होगा तथा समापन 28 सितंबर, 2023 को सायं 5.00 बजे होगा। उक्त तिथि वं समय के पश्चात् दूरस्थ ई–मतदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। दूरस्थ ई–मतदान अनुदेशों के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट info@mpspharmaa.com पर और एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है। कंपनी के सदस्यगण जो कि कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार,, 22 सितंबर, 2023 के अनुसार अंशों को धारण किए हए हैं वे www.evoting.nsdl.com पर एनएसडीएल के दरस्थ ई–मतदान मंच के माध्यम से इलेक्टॉनिक तरीके से अपना मतदान क कित हैं अथवा बैलेट पत्र के माध्यम से सामान्य बैठक में मतदान कर सकते हैं। सदस्यगण दूरस्थ ई–मतदान के पश्चात भी सामान्य बैठक में भागीदारी कर सकते हैं परंतु वे बैठक में मतदान करने के लिए ग्राह्य नहीं होंगे। और यदि तब भी मतदान किया जाता है त वह अवैध होगा और दरस्थ ई—मतदान के माध्यम से किया जानेवाला मतदान विचारित होगा। सदस्यों से अनरोध है कि वे एजीएम सुचना में मुद्रितानुसार ई–मतदान से संबंधित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि सदस्यों को दरस्थ ई–मतदान से संबंधित कोई रन पूछना है अथवा उनकी इस संबंध में कोई शिकायत है तो वे www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्यू) तथा दूरस्थ ई–मतदान पुस्तिका का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in प एक ईमेल लिख सकते हैं। अंशधारकगण जो हैं वे अपनी ईमेल आईडी के पंजीकरा/अद्यतन तथा अन्य विषयों के लिए रजिस्टार अथवा अंश अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) मै एमएएस सर्विसेज लिमिटेड संपर्क नं 011—26387281—83 अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरीज र कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर

सकता है। हालाँकि यदि वह व्यक्ति रिमोट इवोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो मौजदा यजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान करने के लिए कर सकता है। सदस्यगण जो कि भौतिक प्रारूप में अंशों को धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वे सेबी परिपत्र स सेबी / एलएडी--एनआरओ / जीएन / 2018 / 24 दिनांकित 08 जून 2018 के अनुपालनानुसार अपने अंशों को अभौतिक रूप में परिवर्तित कर दें। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पते/पैन/केवाईसी विवरण का पंजीकरण/अद्यतन नहीं किया है, उनसे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड ("आरटीए") के साथ

निर्घारित फॉर्म आईएसआर—1 और अन्य प्रासंगिक रूपों में विवरण पंजीकृत/अद्यतन करने का अनुरोध किया जाता है।16 मार्च,2023 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईऑर/2023/37 के अनसार. कंपनी न भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरघारकों को केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा है जो उनके संबंधित फोलियो में पंजीकृत नहीं हैं। इसके अलावा शेयरघारक कंपनी की वेबसाइट www.mpspharmaa.com पर भी संबंधित फॉर्म देख सकते हैं डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट करें। कृते एमपीएस फार्मा लिमिटेड (पूर्व में एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड)

स्थानः सोहना, हरियाणा दिनांकः 6 सितंबर 2023

NIIT



MANAGED TRAINING

एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूरानल एरिया, गुरूकाम-122001, हरिवाणा, भारत SERVICES CIN: U72200HR2001PLC099478 फोन: +91 (124) 44293000: फीक्स: +91 (124) 4293333

हस्ता./-

वेबसाइटः www.niitmts.com; ईमेलः investors@niitmts.com 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आग बैठक

'एजीएम') बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को सुबह 10:00 बजे (भा.मा.स) में एजीएम की सूचना में नेर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो साघन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपन्न सं0. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और अन्य परिपन्न और सेबी द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एक्जो/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजी गई है जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत हैं । सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता कथित परिपत्रों के माध्यम से इटा दी गई है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजने का कार्य 05 सितम्बर, 2023 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त कथित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nimms.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की

वेबसाइट अर्थात् <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है। एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले मद से संबंधित दस्तावेज और एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी को ई—मेल investors@niimts.com पर अनुरोध भेजने पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रोंनिकली उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम की घारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के

नियम 20. समय-समय पर यथासंशोधित और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के अनपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा कही से भी अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग ('रिमोट ई—वोटिंग') के माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी अपने सदस्यों को वीसी /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिगोट ई—वोटिंग') के उपयोग द्वारा रिगोटली अपना वोट देने और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है। इस संबंध में प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में संलग्न नोट्स में दिये गये हैं। इंस्टीट्यूशनल /कॉर्पोरेट शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने तथा अपना वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। कट—ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई−वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। सदस्यों में मतदान के अधिकार, कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 (प्रातः 9:00 बजे भा.मा.स) प्रारंम होगी और मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 (साथ 5:00 बजे भा.मा.स) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्युल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई—वोटिंग द्वारा एक बार प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। यदि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में भी ई-वोटिंग से वोट दिया जाता है तो केवल रिमोट ई-वोटिंग को ही अंतिम माना जाएगा और एजीएम में

यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 20 सितम्बर, 2023 को शेयर धारित करते हैं, वे <u>evoting@nsdl.co.in</u> अथवा <u>investors@nitmts.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो अपना वोट करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ई—वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थानः गुरूग्राम

द्रिनांकः 05 सितम्बर, 2023

श्री मिलन मलिक मैसर्स मिलन मलिक एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता सं. नियुक्त किया गया है।

एफसीएस 9888) को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई—वोटिंग प्रक्रिया की जाँच के लिये पर्यवेक्षक सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, ढिमेट खाता / फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी,

मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niltmts.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 तक खुला रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य के रूप में है, वहीं पंजीकरण और एजीएम में भागीदारी के लिए योग्य होगा। शेयरघारक जिन्होंने अपना केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने

डिपोंजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डिपोंजिटरीज के पास अपना ई-मेल पता एवं केवाईसी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग एवं भागीदारी के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsd.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या टोल फ्री नं. 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल करें या evoting@nsd.co.in पर अनुरोध मेजें या एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, पर सम्पर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश से

कृते एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड इस्ता./-कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

दिनांकः 05.09.2023

स्थानः नई दिल्ली

Date: 06.09.2023

the members to cast their votes electronically.

at Email: csvirtualeducation@gmail.com.

Place: Delhi